

Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

**NOTARY
DHANBAD**

I, Kalpana Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, by faith hindu, R/o Ram Chowk, P.S. Madhubani, District - Madhubani, Bihar, do here by solemnly affirm as follows:


1. That, I am the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
2. That, Abhishek Ranjan Mishra, S/O Sri Ranjeet Kumar Mishra is my only son, I will give the above said land to my said son.
3. That, the market value of my land and building is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
4. That, I declare that in future if necessary then I will register the said land in the name of my said son. In this regard I have got not any objection.

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by
Sri *R. Choudhary*
Advocate Dhanbad.

The statement made above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this
**NOTARY
DHANBAD**

The Notary Public, Dhanbad.



Authorised.
us 297 (1) (c) of the Cr. P.C. 1873
(Act No. 11 of 1974) & us (B) (1) (a)
of the Notaries Act 1952
(Act No. 53 of 1952)

Kalpana Kumari
Deponent

Identified by

Advocate

06.05.2020



निवास परिया 21 वां नं बड़ी ओड़िया स्ट्रीट
कलापाली ३५०००८
जोगांव मुंबई ४०००७१ नं २५०

23
411
AHAR-30831dt 4/1/08
नं १
मा ०४.०१.०८

4/1/08

Vide declaration no. 06AR497896/08

बंचल अधिकारी रामकृष्ण से प्राप्त से
आगार दस्तावेज में वर्णित मोजा नाम ०४.०१.०८
नम्बर १३ के बातों नम्बर ०४.०१.०८
निम्नलिखित है। सुनी वह
नहीं है।



Free paid

A/c 3,350/-
Sal. 2 = 50
P-fee 0 = 94
3,353 = 44

411

क्रमांक	दिनांक	मात्रा
१	४.१.०८	३,३५३
२	४.१.०८	५०
३	४.१.०८	९४
४	४.१.०८	४४

Lokhi Ram

केवाला दस्तावेज़:-

केवाला दातागण:- १-श्री लखीराम महतो, पिता स्व० कान्दन महतो, २-श्री बुकेश्वर महतो, पिता स्व० करमु महतो, ३-श्री रामचन्द्र महतो, पिता स्व० करमु महतो, जाति-कुमोरी, पेशा-खेती-आदि, साकिम-सरायटेला, थाना-धनबाद हाल-थाना-सरायटेला, जिला-धनबाद भारतीय।

केवाला गहिता:- श्री विजय कुमार सामल, पिता स्व० नटवर सामल, जाति-राजपूत, पेशा-व्यवसाय, साकिम-कुमुम-विवार, पो-बी. सी. सी. स्ल. टाउन-शीप, थाना-धनबाद, हाल-थाना-सरायटेला, जिला-धनबाद भारतीय।

3374/02-08


Bijay m Samaj
Kulavir m Santhal m

13/01/08 10:30 AM
Ganpati

81 Mpc Police N. 30

लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो

20-1-08



4/1/08

संग्रहालय



प्राप्ति

१ लक्ष्मीराम महातो

२ बुकेश्वर महातो

३ रामलक्ष्मी महातो

बोला खानी

जगदीश रावती

एक ही दाम, यहां पर उपलब्ध

नियमित की गई

110
51 88

Lakhifam Mahato
4/01/08

निवासन पदाधिकारी

घनवाद 4-1-08




Lakhi Ram Mohan

4/1/08

द्युमिति
४०८
४०८

द्युमिति
४०८
४०८




- 2 -

बिक्री-पत्र । केवाला दस्तावेज ।
मूल्य- ३, 35, 000/-रुपये । तीन लाख पैंतीस हजार रुपये । मात्र,
सलाना मालगुजारी- १० पैसा, अंचल कार्यालय-धनबाद
मालिक जमींदार-झारखण्ड सरकार धनबाद।


तपशील:- जिला धनबाद, चौकी सदर रजिष्ट्री औफिस धनबाद थाना-धनबाद, हाल थाना-सरायदेला अन्तर्गत "नारायणसुर उर्फ पिपराबेड़ा" मौजे में ऐती स्वत्व का छरीदा सम्पत्ति, मौजा नं-१३ खाता नं-२४ । चौबीस । सामिल प्लॉट नं-३२८ एवं ३२९ । तीन सौ अठाईस एवं तीन सौ उनतीस । अंग परिमाण ०४ कदं। ०५ छटाक २४ वर्गफीट यानि ७. १७ डिसमिल जमीन सह उस पर बना हुआ एजेस्टर के छावनी युक्त मकान के साथ बिक्री किया, जो यह केवाला दस्तावेज के साथ नव्यी की गई नक्शा में लाल रंग से दिखाया गया है।

उक्त मकान का प्लॉट एरिया- २०० वर्गफीट है, जो आवासीय है, जिसमें पानी आदि का संयोग नहीं है, जिसका निर्माण बर्ष १९९२ है।




Lalki Ram Mahato

4/1/08



- 3 -



जिसका चौहट्टी :-

उत्तर :- प्लौट नं०-३२८, ३२९ एवं ३२२ का अंश,

दक्षिण :- प्लौट नं०-३२८ एवं ३२९ का अंश,

पुरब :- प्लौट नं०-३२९ का अंश,

पश्चिम:- १७ फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।

उक्त सम्पत्ति धनबाद रजिष्ट्री औफिस का रजिष्ट्री किया हुआ ३-२-१९६४ साल का ११७। नं० केवाला दस्तावेज द्वारा इन्द्र नारायण साव एवं अन्य से १, नं० दाता के पिता महादीन पेलिया महताईन एवं पिता मह स्व० करमु महतो के नाम से खरीदा, एवं २, तथा ३, नं० दातागण के माता पेलिया महताईन एवं पिता स्व० करमु महतो के नाम से खरीदा सम्पत्ति है, हमलोग वारीशान सूत्र से नीज अंश में प्राप्त होकर जमाबन्दी संख्या-८७ में सलाना मालगुजारी आदाय देते हुए उक्त सम्पत्ति बिक्री किया।

दूसिंह बिक्री पत्र का बिबरण यह है कि हमलोगों को संसारिक खर्च के लिए रुपये की आवश्यकता आजाने से उक्त जमीन का मूल्य- 2, 30, 000/- रुपये एवं उक्त मकान का मूल्य:- 1, 05, 000/- रुपये, कुल मूल्य- 3, 35, 000/- रुपये धार्य कर आपको बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं आपको दखलकार किया तथा दखल दिया।



Lakhi Ram Mahato

4/1/08

४०८
१०८
५०८
३०८
२०८
१०८
०८

४०८
१०८
५०८
३०८
२०८
१०८
०८

-4-

उपरोक्त सम्पत्ति पर हमलोगों का जिस प्रकार का हक-अद्वितीयार दावी-दावा आदि था आज तारिख से आपका हुआ आप उक्त म्कान को तोड़कर नया म्कान आदि तैयार कर नीज वसवास या किराया बन्दोबस्त कर अपना इच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्व प्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर बंश परम्परा से पूर्व-पौत्रादि एवं वारीसन के साथ सदा के लिए भौग दखल करते रहे इसमें हमलोग या हमलोगों के वारीसन किसी प्रकार का वज्र या स्तराज नहीं कर सकता है और करने पर भी वह कानून के मुताबिक नाम्युर होगा।

उपरोक्त सम्पत्ति का सलाना मालगुजारी मालिक जमीदार झारखण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खारीज करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे।

उपरोक्त सम्पत्ति हमलोगों का खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहीं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय-संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके बंशज को क्षति पहुँचे तो हमलोग या हमलोगों के वारीसन क्षति पुरण का देनदार होगा या होंगे।



झारखण्ड JHARKHAND

309213

Lekhi Ram Mahato
4/1/08

भृकुटी
4/1/08

-5-

अतः हमलोग अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से विचार कर मूल्य का पुरा रूपये पा कर संव समझ-बूझकर यह बिक्र्य-पत्र सम्मानन कर दिया कि समय पर काम आ चै।

ईति दिनांक- 4-1-2008,

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज संव द्वितीयक प्रति एक दुसरे की हृष्ट हूँ और स्वच्छी प्रति लिपि है।

Lekhi Ram Mahato
4/1/08

ग्रहिता का छाया चित्र:-



Bijay Kumar Samal
4/1/08



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

भारत

Rs.20

**TWENTY
RUPEES**

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

00AA 767949

Lokhi Kam Mahato
4/1/08
प्रमाणित
-6-
4/1/08

प्रमाणित
4/1/08
4/1/08

प्रमाणित किया जाता है कि दातांगण संव ग्रहिता जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है के बाये हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है संव दस्तावेज का प्रारूप बनाया संव दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया संव समझा दिया।

वाक्य गोपाल प्रसाद
साठ व्यान भाइ
काठ लड्डू ८५८३

:—गवाहगण:

1. गोपाल २ वाई
गोपाल खुल व्यान भाइ

4.1.08

2. Swesh. Rd. Sahu
Damodarpan
Dhanta
4.1.08

टंकः:-

[Signature]

1821

1712



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-JH26845621939556S
 : 20-Feb-2020 05:17 PM
 : CSCACC (GV) / jhcsceg07 / JH-DBSUM0157 / JH-DB
 : SUBIN-JHJHCSCEG0739254586945983S
 : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC
 : Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
 : DEVELOPMENT AGREEMENT
 : 0
 (Zero)
 : PRADIP KUMAR SINGH AND OTHERS
 : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC
 : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC
 : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

नोटारीलियर्स का प्रतीक और छोटापाल
 काष्ठ लगानी की अपील
 जो मानव संसाधनों की सुरक्षा के लिए
 की जनसंख्या के लिए
 दृष्टिकोण स्थापित करता है।
 नशीली में विमुक्ति के लिए उपलब्ध
 नहीं है।

05.03.20

Radheep Kumar Singh
 Radheep Kumar Singh

21/02/20
 05.03.2020

SR 0006200763

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.sholestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



5/3/2020
Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



5005000

Development Agreement St 100,

82
 413
 15
 2
 513

VIDE NOTIFICATION MEMO NO. 499 & 500

DT. 19.02.2017 AFFIDAVIT NO. X-07

FEE AS OF RS. 228848 - VIDE


GRN 2007545921 DT 22.02.20

अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त सूची
 अनुसार दस्तावेज में उपर्युक्त कोड नम्बर 13
 नम्बर 13 दरवाजा खता नहीं
 निश्चिह्न खाते से बाहर है/ रहा है।

झील घोटा गालि का मुख यांत्रिक
 अनुसार नियोजित चूलतम् मुख न करता है।

DS-05

Deep Patel
 LS 41 225825. 10
 225825. W



ENR No. 588/2007

Pradeep Kumar Singh.
 Bijay Kumar Samal.

21/02/20
 05/03/2020



-: डेवलपमेंट एकरारनामा :-

एकरारनामा दाता(प्रथम पक्ष) :- 1. श्री प्रदीप कुमार सिंह, पिता-श्री बाला प्रसाद सिंह, 2. श्री विजय कुमार सामल, पिता-स्व० नटवर सामल, जाति-राजपूत, पेशा-व्यवसाय, साकिन-नारायणपुर, कुसुम विहार, फुटबॉल ग्राउंड के निकट, थाना-सरायडेला, जिला-धनबाद, भारतीय। (भू-स्वामी)

आधार संख्या-1-3857 3413 3630, 2-9828 6467 7684, पैन-1-CJPPS5798P, 2-BIKPS2339K

एकरारनामा ग्रहिता(द्वितीय पक्ष) :- कालजीत बिल्डर एण्ड डेवलपर ओपीसी प्रा० लि० के निदेशक श्री अमिषेक रंजन मिश्रा, पिता-श्री रंजीत कुमार मिश्रा, जाति-ब्राह्मण, पेशा-व्यवसाय, साकिन-103 पार्वती विला, गंगा पथ वेस्ट, पटेल नगर, पटना, बिहार। (डेवलपर)

आधार संख्या-7864 6215 7529, पैन-FBSPM2183N

सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य-90,33,000/- (नब्बे लाख तैतीस हजार रुपया मात्र)।

लेख्य प्रकार :- अपार्टमेंट निर्माण हेतु एकरारनामा



Advocate
ENR No.-588/2007

Pradeep Kumar Singh,
Rajay Kumar Samal

21/02/20

डेवलपमेंट एकरारनामा

विवरण जमीन :—जिला निबंधन कार्यालय, धनबाद, अवर निबंधन कार्यालय सह थाना—सरायडेला, अन्तर्गत “नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा” मौजा में खास दखली रैयती स्वत्व की जमीन, मौजा—नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा, मौजा नं०-13, नया खाता नं०-100(एक सौ), नया प्लॉट नं०-140 एवं नया प्लॉट नं०-139, दो प्लॉटों का कुल रकवा—15.45 डिसमिल जमीन पर आवासीय सह व्यवसायिक अपार्टमेंट के निर्माण हेतु एकरार किया। जिसका पुराना खाता नं०-24 एवं पुराना प्लॉट नं०-328 एवं 329 है।

जिसकी चौहदी :-

उत्तर : प्लॉट नं०-328, 329 एवं 322 का अंश,
दक्षिण : 08 फीट चौड़ा गली,,
पूरब : मनन यादव,
पश्चिम : 21 फीट चौड़ा रास्ता.

उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निर्बंधित दिनांक—15.03.2019 ई० के केवाला दस्तावेज संख्या—1428 के द्वारा पंकज कुमार लोधि, पिता—स्व० हरि प्रसाद लोधि से प्रथम पक्ष के निज नाम पर खरीदी हुई है। जो बही संख्या—01, जिल्द संख्या—113, पृष्ठ संख्या—547 से 596, वास्ते—2019 में लिपिबद्ध है। जिसका दाखिल—खारिज मुकदमा संख्या—3463/आर 27/2018-19 है तथा जमाबंदी रसीद संख्या—0601814749 में लगान वसूल होता है। अंचल कार्यालय, धनबाद के पंजी—।। के भाग वर्तमान—3 एवं पृष्ठ संख्या—62 में प्रथम पक्ष के निज नाम पर अंकित है। एवं उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निर्बंधित दिनांक—04.01.2008 ई० के केवाला दस्तावेज संख्या—60 के द्वारा लखी राम महतो, पिता—स्व० कान्दन महतो एवं अन्य से प्रथम पक्ष संख्या—02 के निज नाम पर खरीदी हुई है। जो बही संख्या—01, जिल्द संख्या—01, पृष्ठ संख्या—37 से 43, वास्ते—2008 में लिपिबद्ध है। जिसका दाखिल—खारिज मुकदमा संख्या—2473(।।)2007-08 है तथा जमाबंदी रसीद संख्या—0353084405 में लगान वसूल होता है। अंचल कार्यालय, धनबाद के पंजी—।। के भाग वर्तमान—1 एवं पृष्ठ संख्या—368 में प्रथम पक्ष संख्या—02 के निज नाम पर अंकित है।

यह कि उपरोक्त जमीन पर प्रथम पक्ष निर्विवाद रूप से शातिपूर्ण वातावरण में भोग—दखल करते आ रहे हैं। साथ ही विवरण अंकित जमीन का विकास कर अपार्टमेंट निर्माण के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को स्वीकृति प्रदान की गई।

Bradeep Kumar Singh
Bijay Kumar Samal

21/02/20

1. यह कि प्रथम पक्ष/भू-स्वामी उपरोक्त विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट के निर्माण हेतु डेवलपर/द्वितीय पक्ष को शन्तिपूर्ण वातावरण में निर्विवाद रूप से दखल देंगे। प्रथम पक्ष इस बात की भी घोषणा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन के एवज में द्वितीय पक्ष से अग्रीम स्वरूप वर्तमान में $-1,00,000/-$ मात्र आज एक्सिस बैंक, पटेल नगर, पटना शाखा द्वारा निर्गत चेक संख्या-000341 के द्वारा प्रदान किया गया। शेष- $3,00,000/-$ रूपये का अग्रीम भुगतान नक्शा पास एवं रेत से स्वीकृति मिलने के बाद द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कर दिया जायेगा। दोनों में सहमति से तय किया गया कि माडा/नगर निगम, धनबाद द्वारा स्वीकृत नक्शा के आधार पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट में प्रथम पक्ष को 34 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष को 66 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी।

2. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा अग्रीम स्वरूप ली गई राशि $-4,00,000/-$ मात्र प्रथम पक्ष अपार्टमेंट निर्माण के अन्दर द्वितीय पक्ष को वापस करेंगे अथवा अपार्टमेंट निर्माण के मूल्य पर उक्त राशि का समायोजन प्रथम पक्ष के हिस्से में कर दिया जायेगा।

3. यह कि, प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन पर किसी भी प्रकार का वाद-विवाद लंबित नहीं है और ना ही इस जमीन की कभी बिकी आदि की गई है। प्रथम पक्ष यह भी दावा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण के लिए माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा पास कराने में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आयेगा। साथ ही विवरण अंकित जमीन पर किसी भी प्रकार का बैंक ऋण बकाया नहीं है।

4. यह कि, अपार्टमेंट निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार से समझौता नहीं करते हुए उच्च कोटि के बिल्डिंग मेट्रियल का ही प्रयोग किया जायेगा।

5. यह कि, अपार्टमेंट के निर्माण एवं प्रथम पक्ष को हिस्सा आवंटित कर देने के बाद प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के नाम पर अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा मानोनित किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम पर फ्लैट का निबंधन करा देंगे।

6. यह कि, अपार्टमेंट के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या अड़चन आने की स्थिति में प्रथम पक्ष अपना हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में भी प्रथम पक्ष हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे और सारी जिम्मेदारी भी प्रथम पक्ष की होगी।

7. यह कि, अपार्टमेंट निर्माण हेतु माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जमीन से संबंधित सारे आवश्यक कागजात प्रथम पक्ष द्वारा निर्विवाद रूप से द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्य के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन या शपथ पत्र तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

Pradeep Kumar Singh
Bijay Kumar Samal

21/02/20

8. यह कि, निर्माण के दौरान प्रथम पक्ष या उनके वारिसान किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी या रुकावट डालने का कार्य नहीं करेंगे। विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण के लिए डेवलपर अपने ठेकेदार, करीगर, पार्टनर आदि बहाल कर उनसे काम लेने का पूरा अधिकार होगा। डेवलपर किसी भी सरकारी या निजी संस्था से निर्माण मेट्रियल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही कार्य से संबंधित किसी संवैधानिक संस्था का सहयोग लेने एवं कानूनी कार्रवाई का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

9. यह कि, द्वितीय पक्ष के हिस्से में आने वाले सुपर बिलटप एरिया पर पूर्ण अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष विज्ञापन के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में बुक कर उस भाग को किसी भी व्यक्ति से बिकी करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होंगे और उसका मूल्य लेने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को ही होगा। फ्लैट खरीदने वाले कोई भी खरीदार बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज ले सकते हैं। इस पर प्रथम पक्ष को कभी कोई आंपत्ति नहीं होगी।

10. प्रथम पक्ष/भू-स्वामी अपने हिस्से का उपयोग अपनी ईच्छानुसार कर सकते हैं। प्रस्तावित अपार्टमेंट के छत पर दोनों पक्षों का समान अधिकार होगा। लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष अपसी सहमति से नियमानुसार निर्माण कर सकते हैं।

11. साथ ही अपार्टमेंट का निर्माण माडा/नगर निगम, धनबाद से स्वीकृत नक्शा के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि किसी भी तरह से गलत निर्माण किया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी डेवलपर पर होगी। इस कारण यदि कोई वाद या कानूनी प्रक्रिया आरंभ होती है तो सारी जवाबदीह डेवलपर की होगी। इसमें प्रथम पक्ष/भू-स्वामी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार अथवा जवाबदेह नहीं होंगे।

12. यह कि, माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा पास होने से पूर्व विवरण अंकित जमीन से संबंधित सभी प्रकार के बकाया कर आदि का भुगतान प्रथम पक्ष को करना होगा, नक्शा स्वीकृत होने के बाद सभी प्रकार के कर आदि का भुगतान डेवलपर द्वारा किया जायेगा। अपार्टमेंट के निर्माण के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से के कर आदि का भुगतान करेंगे।

13. यह कि, प्रथम पक्ष/भू-स्वामी द्वितीय पक्ष को भूमि के टाइटल में त्रुटि होने से सुधार करेंगे तथा ये भी दावा करते हैं कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को ना तो बेचेंगे, ना ही किसी भी प्रकार का कर्ज लेंगे और ना ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अन्य से कोई एकरार करेंगे।

14. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट निर्माण से संबंधित सभी नफा एवं नुकसान के स्वयं भागी होंगे। निर्माण से संबंधित सभी कार्यों तथा किसी दुर्घटना के लिए प्रथम पक्ष की जवाबदेही नहीं होगी।

15. यह कि, किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्था में किसी प्रकार का सिक्योरिटी अमाउंट संस्था द्वारा मांग की जाती है तो डेवलपर उसे जमा करेंगे और वापस लेंगे। प्रथम पक्ष का उसपर कोई अधिकार नहीं होगा।



21/02/20

Bijay Kumar Samal

Pradeep Kumar Singh

16. यह कि, सामान्य सुविधाओं के लिए होने वाले खर्च का वहन प्रथम पक्ष को करना होगा। प्रथम पक्ष जनरेटर विद्युत व्यवस्था पर लगने वाले खर्चों का समानुपातिक भाग का वहन करेंगे।
17. यह कि, प्रथम पक्ष डेवलपर के आग्रह पर सभी प्रकार के आवेदन, केवाला दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करेंगे।
18. यह कि, एकरारनामा होने के 30 दिनों के अन्दर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटार्नी बना देंगे ताकि डेवलपर बिल्डिंग प्लॉन बनाकर पास कराने तथा भविष्य में खरीदारों के लिए एकरारनामा तैयार करने में मदद मिल सके।
19. यह कि, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद डेवलपर प्रथम पक्ष को लिखित सूचना देंगे एवं उसमें लगने वाले सभी कॉमन फिटिंग एवं सारी सुविधा मुहैया कराकर प्रथम पक्ष के हिस्से को हस्तांतरित करेंगे।
20. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट का निर्माण डेवलपर द्वारा स्टैण्डर्ड स्पेसीफिकेशन के अनुरूप करेंगे। स्पेसीफिकेशन से अलग हटकर कोई काम प्रथम पक्ष करना चाहें वैसी स्थिति में अतिरिक्त लागत का भुगतान प्रथम पक्ष करेंगे।
21. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट में खरीदने वाले सभी फ्लैट ऑनर्स की एक कमिटी गठन डेवलपर करेंगे। इस कमिटी में प्रथम पक्ष भी सदस्य होंगे तथा यह कमिटी बिल्डिंग के रख-रखाव तथा देख-रेख का कार्य करेगी। इसमें आने वाले कॉमन कार्य का भुगतान बराबर-बराबर सभी को करना होगा। प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से के हिसाब से कॉमन कार्य का पैसा कमिटी को देंगे।
22. यह कि, डेवलपर अपार्टमेंट के अलावा चहारदीवारी, पानी के बोरिंग एवं लिफ्ट आदि की व्यवस्था करेंगे।
23. यह कि इस एकरारनामा के बाद विवरण अंकित जमीन में किसी प्रकार की त्रुटि निकलती है तथा कुछ भी विवाद होता है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को होने वाले नुकसान की भारपाई करेंगे।
24. यह कि, इस एकरारनामा पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से जरूरत पड़ने पर जो भी रकम लेंगे, वह प्रथम पक्ष के एरिया पर समायोजित होगा।
25. यह कि, इस एकरारनामा से संबंधित सभी विवाद को सुलझाने के लिए धनबाद न्यायालय हीं सक्षम होगा। इस एकरारनामा की दो प्रति तैयार की गई है, जो एक-दूसरे की नकल है, एक प्रति द्वितीय पक्ष के पास होगी तथा डुप्लीकेट कॉपी प्रथम पक्ष के पास होगी।

Badeep Kumar Singh
131109 Kumar Singh
21/02/20

26. यह कि, नक्शा पास एवं रेंडर से स्वीकृति होने के बाद निर्माण के लिए लगभग 03 वर्ष का समय एवं 06 माह का अतिरिक्त समय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।

27. नक्शा पास होने बाद हीं प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच हिस्से का बंटवारा किया जायेगा एवं निबंधित एकरारनामा होने के बाद द्वितीय पक्ष विवरण अंकित जमीन पर बोर्ड लगाकर अपना दखल-कब्जा लेकर अपार्टमेंट निर्माण का काम कर सकते हैं। दखल-कब्जा में किसी भी प्रकार का विवाद अथवा अड़चन आने पर सारी जवाबदेही प्रथम पक्ष की होगी।

अतः प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अपनी स्थिरबुद्धि, सरलमन, शान्तचित्त एवं स्वस्थ शरीर में रहकर गवाहों के सामने समझ, बूझाकर, यह डेवलपमेंट एकरारनामा लिख दिया ताकि समय पर काम आवे।

इति तारिख :— 21/02/2020 ई०

द्वितीय पक्ष का छायाचित्र :



Kaaljeet Builders and Developers OPC Pvt. Ltd.

Abhishek Rayan Nishtha
Director

21/02/20

मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया। प्रमाणित किया जाता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के जो छायाचित्र इस दस्तावेज में लगे हैं, के बाँये हाथ के अँगूलियों के निशान मेरे सामने लिये गये हैं।

गवाहगण :—

1. Billesh Mantri
S/o Ramesh Mantri
Kusum Vihar Piparbera
Dhanbad

2. Somnath Dey
S/o Lt. Dip Dey
Kusum Vihar
Dhanbad

Shailesh Kr.
ENR -588/2007
Adv. Ahanbagh

दिलीप शैलेश
05. 03. 2020

Dhanbad
21/02/20

Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

I, Kalpana Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, by faith hindu, R/o Ram Chowk, P.S. Madhubani, District - Madhubani, Bihar, do here by solemnly affirm as follows:

1. That, I am the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
2. That, Abhishek Ranjan Mishra, S/O Sri Ranjeet Kumar Mishra is my only son, I will give the above said land to my said son.
3. That, the market value of my land and building is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
4. That, I declare that in future if necessary then I will register the said land in the name of my said son. In this regard I have got not any objection.

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by
Sri *R. Choudhary*
Advocate Dhanbad.

The statement made above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this
**NOTARY
DHANBAD**

Authorised.
us 297 (1) (c) of the Cr. P.C. 1873
(Act No. 11 of 1974) & us 18 (1) (a)
of the Notaries Act 1952
(Act No. 53 of 1852)

Kalpana Kumari
Deponent

Identified by

Advocate

The Notary Public Dhanbad.



Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

**NOTARY
DHANBAD**

I, Abhishek Ranjan Mishra, S/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, Aged about 19 years, by faith hindu, Director of KAALJEET BUILDERS AND DEVELOPERS (OPC) PRIVATE LIMITED, having CIN - U45500BR2019OPC044398 Dated 05-12-2019 incorporated under The Companies Act 2013, having its address- C/O Abhishek Ranjan Mishra, F.No - 103, Parvati Villa, Ganga Path, West patel nagar, Distt - Patna, Bihar - 800023, do here by solemnly affirm as follows:

- 08 NO. Date 06 MAY 2020 B.C.N.O.
- That, my mother Smt. Kalpana Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra is the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
 - That, she has given no objection in favour of me to use said landed property with building of market value is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
 - That, she also declares that in future if necessary then she will register the said property in my name.
 - That, the above statements are genuine and correct to the best of my knowledge. I also submit no objection affidavit of her.

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by

Sri *Dilip Kumar*
Advocate Dhanbad.

The statement made above are

Joshi
true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this verification here at Dhanbad dated *06 MAY 2020*

Abhishek Ranjan Mishra
Deponent

Identified by

Deepti
Advocate *6/5/2020*



**NOTARY
DHANBAD**

Affidavit
in 207 (1) (c) of the Cr. P.C. 1973
(Act No. 11 of 1878) & 16 (3) (ii) (b)
of the Motor Act 1892
(Act No. 53 of 1892)

Form GST REG-02

[See Rule -8(5)]

Acknowledgment

Application Reference Number (ARN) :AA1005200015660

You have filed the application successfully and the particulars of the application are given as under:

Date of Filing :06/05/2020

Time of filing :13:17:29.0

GSTIN, if available :NA

Legal Name : Kaaljeet Builders and developers (OPC) Private limited

Trade Name (if applicable):KAALJEET BUILDERS AND DEVEL

Form No. :GST REG-01

Form Description :Application for New Registration

Center Jurisdiction :PATNA CITY RANGE

State Jurisdiction :Patna North

Filed by :self

Temporary reference number, if any: 102000053679TRN

Payment details* : NA

It is a system generated acknowledgment and does not require any signature.

**Applicable only in case of Casual taxable person and Non Resident taxable person .*



विहार BIHAR

मालवी

21 MAY 2011

1987
1000 880000
M. V. R. FOR
गोपनीय महाप्रभु



विहार सरकार
बिला निवंधन कार्यालय, मध्यबनी

दाता यह दस्तावेज़
निवंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु. 45000/- मुद्रांक शुल्क एवं रु. 15761/- निवंधन तथा

अन्य शुल्कों का भुगतान किया गया। दस्तावेज़ प्राह्य पाया गया। जिन लेखकारियों ने मेरे समाज इनका
निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकाली के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं छाताचार
प्रीति भवित्व है। इस दस्तावेज़ में 4090 के रूप में सूतक सं० 1 की जिस्ट मं० 49 के पृष्ठ सं०
पृष्ठों में सं० 359 से 365 तक CD 8 में आवंशिक एवं कुल 7 पृष्ठों में सं० 4090 के रूप में सूतक सं० 1 की जिस्ट मं० 49 के पृष्ठ सं०
पृष्ठों में सं० 4090 के रूप में सूतक सं० 1 की जिस्ट मं० 49 के पृष्ठ सं०

ह० V. K.
(Vinay Kumar Prasad)
निवंधन पदाधिकारी

Date : 06/06/2011

101. नाम जीडीरा - श्रीमती राम नाडेना देवी जीडी - श्री. विरेक
जीडीय पेट्रा - क्रान्तिकारी लाडी नाडेना - एकताए
प्र. जारेल लाडा - अद्व. जिला - गंगुवनी
गांधीगंगा ठा

102. नाम जीडीरा अलौ - श्रीमती उल्लामा उल्लामा - जीडी
श्री - जीडी मिश्र पेट्रा - क्रान्तिकारी लाडी
गांडी - पाठी पा. सन सन पाठी पा. अद्व
लाडा - पुरामल जिला - गंगुवनी गांधीगंगा ठा

SCANNED



रामनगरीठा लैसा - बुद्धी
उमरुकुण्डली लैसा - बुद्धी

4.6 -

Serial No :	Deed No :	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Token No : 4277	of 2011					
Type & Status of Party	Name of Party					
In Favour of	Kalpana Kumari <i>कल्पना कुमारी</i>					
Presented by Self	Signature of Party Ram Nagina Devi <i>राम नगिना देवी</i>					
Executed by	Signature of Party Ram Nagina Devi					
Identifier	Signature of Party Arvind Pd. Singh <i>अर्विंड पी. सिंह</i>					
	Signature of Party					



अप्रैल २०११ को यस दस्तावेज़ को लिया गया है। इसकी तिथि ५-६-२०११ है।
 राम नगिना देवी
 ५-६-११ / ६१६११
 अप्रैल २०११ को यस दस्तावेज़ को लिया गया है।
 राम नगिना देवी
 ५-६-११ / ६१६११
 ५-६-११



STATE OF BIHAR


1 MAY 2011

मोड़ी प्रलेट के पाल मन्दिरों का एक चो
पेश वांछी नहीं है। मोड़ी प्रलेट के बाहर,
इस उपर्युक्त जनीन पर भवति इसकी धारियां
उपर्युक्त उसके कुछ उपज तथा आम
उपर्युक्त उसके गोदा उपजों की छह दो
दल्ली री भवति ताज विश्वर दल्लीरु के अग्रिमही
दल्लीलम् एवं दल्ली चरण उपर्युक्त दल्ली दल्लीरु की भविति
दल्ली दल्ली भावी दल्ली दल्ली चरण उपर्युक्त जनीन
पर्युक्त भवति एवं दल्ली चरण उपर्युक्त विवाह वा उपर्युक्त
नहीं है तजादि याद वाह एवं दल्ली पुकार का चरण
वाह विवाह वा उपर्युक्त पर्युक्त रो दल्लीलम् ॥ १० ॥
दल्ली भावति दल्ली चरण उपर्युक्त दल्ली दल्ली
जरखेम दल्ली लवति लो हजा दल्ली दल्ली
का दल्ली ॥ कह वाह एवं विवाह ॥ पर ॥ (दल्लीम) ॥
दल्ली दल्ली एवं प्रभाष्य उपर्युक्त भाव दल्ली वा उपर्युक्त

भाव

दल्लीभर दल्ली जाता हुआ दल्ली दल्ली दल्ली
वावेर भावी गर्व गर्वत्वामा भाव दल्ली, भ-दाते गर्वत्वामी
वावेर वावेर दल्ली, वावेर पर्युक्त रो लवत्वामी भाव
नहीं है।

दिन - 04-06-2011 ३६



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



टनां - देवदा

8.39 - 1575 के राम दाम पंखट (30)

6461 - चौसठ दो रुपये

6462 - चौसठ दो नालट

6463 - चौसठ दो तिस्रे

6464 - चौसठ दो चारठ

6465 - चौसठ दो पंखट

G 440973

प्रीमियम - 152 के जानिव पंखिल दो 690/-

छ उठा, रुपये सात अधिक छाल औरदी

उठ सुडहन मिश्र द१ नीम रास्ता ५० सुनीता

मिश्र प० रास्ता ल०३

अब बड़ी भूमि लगाना ३१ वर्ष पुदारा दोडगढ़ा

अधिकला ल०३५ x ४०३२५ . २४ x २०' कीमत - ३,८०,०००/-

एवं जमीन की कीमत - ३४०,०००/-

प्रमाण गुनाही के अस्त्र रुपया के लालने ५५०,०००

जल्दी के तमा वा दलदी करने दीजा जानी की

अच्छे अक्षर आपना अस्त्री दो घोरा मालडी



फपन मन तो आपनी की ल०८ x ०८' मेवामी

लाला ल०८' - ५.१ ग्राम पूला ल०८' ल०८' - ५.१ ग्राम

अलिंग लाला ल०८' - २ ते ३ टाला वेता वा ल०८' ल०८'

कलामी ल०८' वा ल०८' ल०८' ल०८' ल०८' ल०८' ल०८' ल०८'

V. K.P.



103 ट्रॉले सरकारी वेत्र - डेनाला (नेहला बंधानी)

104. तामदाद अवैतन गाँव - ₹ 50,000/- लाल वाल पंचान
गाँव लाल गाँव.

105. तामदाद नववा दवाजी - 4.548 माल हवालन पंचान
दो भृत्याल फिलहाल गाँव - ५१०७ एक उड़ा दूस घु
लाजी कागा कासा अधानी लाड लड़ू नाज - मालाड
लाहू दृढ़ा लाल लदेलाहू वाला नाज - ५० ३११४१८५३
नाज को ग्रामीण वा दूष को जीर्णी - मध्यवर्ती वाला
1062 तामदाद 10-6424 नव जमीनदादी तलुड़ पंचान
दहिया जमानदी न० 8404.

उमीद का ब्रह्मा निवाल

जमीन बजदीले डेनाला निजानी बजिली ५० ता ०

21.५.२०१० की दृष्टि ६२६० CB-12 जालून १० १०.
पैदा ५० - ३७५ दृ ३८६ गविस्तरी जीमी कु ००१ दृ
जाजी - सी डेनाला नाल काचानी ००८ जी माड़ा - ५०
गोपालपुरा दृ नाम त्रैवृद्ध बाजानी दृ ००८ जी माड़ा - ५०
वरीद वा ठासिल हो। अधिक दृ ००८ जी माड़ा - ५०
उमीद चला भारता दृ ००८ जी माड़ा - ५०

V.K

गोपीनाथ निवाल
कर्माचारी निवाल
पंचान - ५२१०८८ - ३४८८
कर्माचारी निवाल
पंचान - ५२१०८८ - ३४८८

जिला निबंधन कार्यालय, मधुबनी

नजरी नक्सा

८६८

टोकल नं०

क्रेता :- श्रीमती उम्मता दुर्गामी ज्ञान. की दिनांक १५.०७.२०२४ वा० पाठी वाहा. पर्णदेश
जिला. जन्मननी

स्वाता नं०

४३७

दस्तावेज सं०

दिनांक

वा० पाठी वाहा. पर्णदेश

विक्रेता :- श्रीमती रमनगोप्ता देवी ज्ञान. की विरेतु प्रमाणार्थ ५० जरेल नाम - ५१३४
जिला. जन्मननी

छोसाय नं० १५७८५५०

६४६१
६४६२
६४६५
६४६४
६४६५

वौहवी :-

उ०- लुड्डन मिश्र


द०- नीम नाला

पू०- लुनीसा मिश्रा

ष०- जाला छड्डे

नजरी नक्सा

उत्तर



6/6/11

नक्सा निर्माता का नाम एवं हस्ताक्षर
पूर्ण दुर्गामी

क्रेता का हस्ताक्षर

Kalpana Kumari

५/६/११

विक्रेता का हस्ताक्षर

रमन गोप्ता ५०/

५/६/११

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I.A, No. 23. Also admissible under section 26(u) of the B.T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act			Rs.	45000	Amt. paid by H.J. Stamp Paper -	Rs. 4000
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act			Rs.	0	Amt. paid through Bank Challan -	Rs. 56761
Registration Fee					LLR + Process Fee	Service Charge
FEE PAID	A1	15000 C	0 H1b	0 K1	0 L1b	500
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 L1b	50
	A9	0 DD	0 I	0 K1c	0 M1	175
	A10	0 E	0 J1	0 K2	0 N1	
B		0 H1a	0 J2	0 L1	TOTAL -	550
					15036	
					15761	
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -						
Date : 06/06/2011						

V.K.P
Registering Officer
Madhubani

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Madhubani on Monday, 06th June 2011 by Ram Nagina Devi s/o Virendra Mauar by profession Agriculture. Status - Executant

Signature / L.T.I. of Presentant

Date : 06/06/2011

V.K.P
Registering Officer
Madhubani

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Arvind Pd. Singh age ... Sex M son/daughter of Virendra Mauar resident of Vill-Ektara, Ps-Arer, Madhubani.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

V.K.P
Registering Officer
Madhubani

Date . 06/06/2011

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Madhubani in Book No. 1 Volume No. 49 on page no. 359 - 365 for the year 2011 and stored in CD Volume No.CD-8 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

V.K.P
Registering Officer
Madhubani

Date : 06/06/2011

Token No.4277 Year - 2011 Sl.No. 4288

SCORE Ver. 2.0

Deed No. 4090 NIC-Bihar

भूमि की दाखिल-खारिज के लिए KALPNA KUMARI
पर्यंग पत्तनी पत्री RANJEE MISTRYA निवासी नाम
श्रीआडा थाना MADhubani बक्षर Rathika अचल
Rathika अनमण्डल Madhubani जिला Madhubani
से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन का व्यारे
निम्नवत है:-

याचिका संख्या	याचिका प्राप्त संख्या	वार संख्या	वाचिका कल्पना
संख्या	होने की तिथि	नवे के साथ	(ओं) का नाम
173	10.04.2018	22	R27 KALPNA
	17.1.2018	20	KUMARI

भूमि का विवरण जिसके दाखिल-खारिज के लिए याचिका दी
गया है

अधिकारी	पत्री	स्थान	तरा अभि का	घोषणा
अधिकारी	पत्री	संख्या	संख्या रखेवा	दोहरी
ना.	ना.	62-839	1875	पर्यंग
पात्र	पात्र		एकड़ 4-578	SRI NILA
पात्र	पात्र		प्रिसमीन	MISTRYA
पात्र	पात्र		बक्षर	परिशम
पात्र	पात्र			STRAKHA
पात्र	पात्र			ROAD